



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 वैशाख 1932 (श0)
(सं0 पटना 311) पटना, बृहस्पतिवार, 6 मई 2010

सहकारिता विभाग

अधिसूचना
6 मई 2010

संख्या 7/नि. (विधि 09) न्या.मा.-15/2010-2552—बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 यथा संशोधित की धारा-14A की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार निम्न प्रकार की सहकारी समितियों में प्रबन्ध समिति के सदस्यों का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 के तहत सृजित बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के माध्यम से संचालित कराने का निर्णय लेती है —

- (1) प्राथमिक कृषि साख समितियों की प्रबन्ध समिति के प्राधिकार द्वारा सम्पन्न गत् निर्वाचन के उपरान्त शेष रिक्त पदों का निर्वाचन एवं वैसी प्राथमिक कृषि साख समितियाँ, जिनकी प्रबन्ध समिति के सदस्यों का निर्वाचन, प्राधिकार द्वारा सम्पन्न गत् निर्वाचन में नहीं हो सका है।
- (2) सभी व्यापार मण्डल सहयोग समितियाँ
- (3) सभी केन्द्रीय सहकारिता बैंक
- (4) बिहार राज्य सहकारिता बैंक
- (5) बिहार राज्य क्रय-विक्रय संघ
- (6) बिहार स्टेट हाऊसिंग को-ऑपरेटिव फेडरेशन।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
लियान कुंगा,
सरकार के विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 311-571+100-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>